

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल दरभंगा-2

Mail ID:-rwdecdbg2@gmail.com

पत्रांक 96. (अड०) /

दिनांक 17/01/2025 /

प्रेषक,

ई० अवधेश कुमार,
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्र०, दरभंगा-2

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
(3054-एम०आर०)
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:-

शीर्ष-3054 (नई अनुरक्षण नीति-2018) अन्तर्गत पूर्ण किये गये पथों में आवंटन मॉग हेतु अधियाचना पत्र समर्पित करने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में गैर योजना मद शीर्ष-3054 (नई अनुरक्षण नीति-2018) अन्तर्गत पूर्ण किये गये पथ में आवंटन मॉग हेतु राशि की अधियाचना विहित प्रपत्र तैयार कर समर्पित की जा रही है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि रु० 67.68000 लाख (कुल सरसठ लाख अड़सठ हजार रुपये) मात्र रुपये का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। ताकि संवेदक को भुगतान किया जा सके।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाषन


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्र०, दरभंगा-2
17.1.25

Name of Works Division:- RWD Works Division Darhang-2

1. Signed Hard Copy and Soft Copy (in excel) of recorded IRI is enclosed.
2. Up to date Physical Progress has been uploaded in MMS

Executive Engineer
RWD Works Division Darbhang-2

Executive Engineer
RWD Works Division Dardhang-2
17/1/25

FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (1) below Rule- 150)
Form of Utilisation Certificate up to the month of Jan-2025
Head 3054 Account for M.R (New Maintenance Policy-2018) Yojna. Year 2024-25


PIU Darbhanga-2

Sl. No	Name of Scheme	Sanction No. & Date with Amount (in Rs. Lacs)	Amount Received (in Rs. Lacs)	Particulars
1	Maintenance Account for Head 3054 Account for MR R (New Maintenance Policy-2018) Yojna	Additional CEO-cum- Secretary Patna. Letter No-140 We Date- 27.12.2024	Rs. 4036.13749	Certified that out of Rs 4036.13749 lacs received during the years 2024-25 in favour of Ex. Engineer RWD work division Darbhanga-2 a sum of Rs 3754.83150 lacs has been utilized for the purpose of Maintenance Account for Head 3054 M.R (New Maintenance Policy-2018) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs 281.30599 lacs remaining unutilized at the end of the period under.
	Total		4036.13749	

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants in aid was sanctioned have been duly fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.


Kind of Checks exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Constructions materials have tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conduction by the Assistant Engineer/ Executive Engineer
- All other codal formalities have been observed.




D. A. O.

R.W.D. Works Division
Darbhanga-2



Executive engineer,

R.W.D. Works Division
Darbhanga-2



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल दरभंगा-2

प्रमाण-पत्र


विभागीय आदेशानुसार सत्यापित किया जाता है कि शीर्ष 3054 (नई अनुरक्षण नीति-2018) अन्तर्गत PWD Lalpur to Parti Tola Via Brahaman Asthan तक पथ मरम्मत कार्य की जाँच 100 प्रतिशत संबंधित कनीय अभियंता, 50 प्रतिशत संबंधित सहायक अभियंता एवं 10 प्रतिशत कार्यपालक अभियंता द्वारा कर लिया गया है।


17/01/25

कनीय अभियंता,


17/01/25

सहायक अभियंता


17/01/25

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्र0, दरभंगा-2

Name of Customer : JAI SHANKAR KUMAR

Name of Work/ Road : PWD Lalpur to Parti Tola Via Br

Lab Job number :

Date : 17-01-2025

Section No. : 5

Test Date : 17-01-2025

Road Name : PWD Lalpur to Parti Tola Via B

Machine No : 477

Road Type : (R) RURAL ROAD

Start S No :

Side :

Start E No :

Interval :

Weather :

U/V Range : 1558 To 5000 1000 mm/km

Start Location :

Dist Range : 0 To 1.3 0.1 - 1000 m

End Location :

Equation : $Y = 0 * X^2 + 1.136 * X + 132.5$

Print

Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File : C:\Users\om\Desktop\New folder (10)\RRI.Xls. Section No. : 5, Eqn : $Y = 0 * X^2 + 1.136 * X + 132.5$

Name of Customer : JAI SHANKAR KUMAR, Name of Work/ Road : PWD Lalpur to Parti Tola Via Brahman Asthan..

U/V
mm/
km



17/01/25
17/01/25

17/01/25

Distance : 1000 m
17/01/25

Executive Engineer
R.W.D.(W) Division
Darbhanga-21.1

NAME OF THE ROAD- PWD Lalpur to Parti Tola Via Brahman Asthan.

NAME OF THE CONTRACTOR- Jai Shankar Kumar

LENGTH-1.2 K.M

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	CATEGORY ROAD	Latitude	Longitude	Event
17/01/25	10:48:16	5	0.1	250	10.1	2500	3372	G	26.186418	85.733397	Normal
17/01/25	10:48:36	5	0.1	270	20.2	2700	3228	G	26.186427	85.733392	Normal
17/01/25	10:48:51	5	0.1	320	10.2	3200	3438	G	26.185917	85.733165	Normal
17/01/25	10:49:5	5	0.1	240	15.1	2400	2558	G	26.18509	85.731927	Normal
17/01/25	10:49:19	5	0.1	270	10.1	2700	2931	G	26.184695	85.73123	Normal
17/01/25	10:49:36	5	0.1	280	10.1	2800	3059	G	26.182866	85.730565	Normal
17/01/25	10:50:10	5	0.1	270	10.1	2700	2921	G	26.182478	85.72898	Normal
17/01/25	10:50:29	5	0.1	280	20.2	2800	2925	G	26.182641	85.728429	Normal
17/01/25	10:50:39	5	0.1	280	10.1	2800	3192	G	26.18287	85.727505	Normal
17/01/25	10:50:57	5	0.1	290	20.2	2900	3492	G	26.183673	85.72729	Normal
17/01/25	10:51:17	5	0.1	240	10.2	2400	3067	G	26.184011	85.726447	Normal
17/01/25	10:51:39	5	0.1	290	20.2	2900	3548	G	26.18349	85.72577	Normal
AVERAGE IRI							3144.25				

$$Y = 0 * X^2 + 1.136 * X + 132.5$$

$$X = 3000$$

$$Y = 3540$$

(R) RURAL ROAD
Good Average Poor
<4000 4001-5000 >5001

17/01/25
J.S.

17/01/25
Nilesh

Executive Engineer
R.W.D.(W) Division
Darbhanga-2

17/01/25
Guru